





REF: GPIL/NSE&BSE/2024/5668

Date: 13.11.2024

To,

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400001.

Scrip Code: BSE: 532734

To,

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C/1, Block G,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai-400051.

Scrip Code: GPIL

Dear Sir/Madam,

Sub: Publication of Notice of Remote e-voting regarding Extra Ordinery General Meeting (EGM) to be held on 11.12.2024.

We have published the notice regarding remote e-voting in Hindi and English Edition newspapers on 13.11.2024.

Please find enclosed herewith a copy of the paper cuttings of the same.

Thanking You,

Yours faithfully,

For, Godawari Power And Ispat Limited

Y.C. Rao

Company Secretary

Encl: As Above



Godawari Power & Ispat Limited

An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certified company CIN L27106CT1999PLC013756

Registered Office and Works: Plot No. 428/2, Phase 1, Industrial Area, Siltara, Raipur - 493111, Chhattisgarh, India

P: +91 771 4082333, F: +91 771 4082234

Corporate Address: Hira Arcade, Near New Bus Stand, Pandri, Raipur - 492001, Chhattisgarh, India

PUBLIC NOTICE The Managing Committee of New Jaiphalwadi S.R.A. Co-operative Housing

Society Limited Foriett Hill Road, Tardeo, Mumbai 400 026, has started registration of names of nominees of eligible members as well as decease members of the society. While carrying out the process of registration, if any member or nominees of deceased members have any objection /claim, then concerned member will have to furnish their written statement regarding objection/ changes, Original Documents and newspaper cutting within 15 days of publication of

this notice at the above-mentioned address during the office hours (7.00 to 8.30 pm) and put up before the Committee his grievances in details. The society will not consider if any objection/claim are received after the due date. In such cases, in future also society will not be held responsible which

may please be noted. S.No. Name of the Original Member Nominee Name Flat No. Bibijan Karim Shaikh Rakhi Ravindra Bahutule - Daughter B-9-1108

Date: 08/11/2024 For New Jalphalwadi S.R.A. Co-Operative Housing Society Ltd. Secretary Treasurer

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India

Virar (E) Branch: 1ST Floor, Riddhi Siddhi Residenc Naringi Phata, Chandansar Road, Virar (East) Palghar. Thane – 401305 E-mail: VirarEast.MumbaiNorth@bankofindia.co.in

APENDIX IV [See Rule 8(1)

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)]

Whereas

the undersigned being the Authorized Officer of the Bank of India, Virar East Branch Ridhi Sidhi Residency, 1st Floor, V S Marg, Virar East – 401305, Palghar District, unde the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Rule 8 Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 30.08.2024 calling upon the Borrowers/Mortgagors SUSHIL SAKHARAM JADHAV and SHWETA SUSHIL JADHAV to repay the amount mentioned in the notice being Rs.20,57,357.40 (Rupees Twenty Lakhs fifty seven thousand three hundred fifty seven and fourty paise only) as on 30.08.2024 payable further interest, costs, charges and expenses until payment in Full within 60 days from the date of receipt of the said

The Borrowers/Mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on nim/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rues on this 7th November of the year 2024.

The Borrowers/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India for total amount of Rs.20,57,357.4 (Rupees Twenty Lakhs fifty sever thousand three hundred fifty seven and fourty paise only) with further interest & expenses thereon until full payment.

The borrowers' attention is invited to the provisions of the sub section (8) Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured asset.

Description of immovable property All that part and parcel of the Property at Equitable Mortgage of Flat No. A-006 SAI SWAPNA APARTMENT NO.2 Virar East Palghar.

Date: 07.11.2024 (Authorised Officer) Bank of India

POSSESSION NOTICE

hereas, the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited (Formerly known as analakshmi Financial Services Limited), under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of pow ers conferred under section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices to the borrower(s)/ Co-borrowers(s) calling upon the porrowers to repay the amount mentioned against the respective names together with nterest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within 60 days rom the date of receipt of the said notices, along with future interest as applicable incidental expenses, costs, charges etc. incurred till the date of payment and/or realisation. Borrower/ 13(2) Notice Date/ Date/ Time

No.		Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor	Outstanding Due (in Rs.) as on	& Type of Possession
1	45678640001103, 4752020000768182	1. M/s Global Engineering INC Through Proprietor Maulik Balkrishna Shah. (Borrower), 2. Mr. Maulik B Shah (Co-Borrower) 3 Mrs. Anjali M Shah (Co-Borrower) 4. Mrs. Nayna B Shah (Co-Borrower)	Eight Hundred And Thirty Eight And Fifty Paise Only) as on 03/09/2024	Time: 03:08 PM Symbolic Possession

Description of Secured Asset:- All that piece and parcel of the immovable Property Bearing No.Flat No.704, on 7th Floor, Adm. 702 Sq.Ft. (Carpet Area), in the building known as "Lourdes Tower CHSL", Constructed on plot of the land Bearing C.T.S. No.190, 194, 195(P) & 195/1 To 19, Situated at Gautam Budha Marg, Opp. Orlem Church, Malad (W), Village- Valnai(Malad), Tal.-Borivali, Dist.-Mumbai Suburban.

	53000016	Amresh Dayashankar Pandey. (Borrower) Anuradha Pandey (Co-Borrower)	05-09-2024 Rs.2,49,941.40 (Rupees Two Lacs Forty Nine Thousand Nine Hundred And Forty One and Forty Paise Only) as on 03/09/2024	Date : 11-11-2024 Time: 06:30 PM Symbolic Possession
--	----------	---	--	---

Description of Secured Asset:- All that piece and parcel of the property bearing sur vey No.5 Hissa No. 1A(P) admeasuring 385.Sq.Ft. Built up at Jaishri Krishna Nagar building No.4, room No.2, Mharal Gaon, Varap, Kalyan 421302 and within the Jurisdiction of Kalvan Municipal Corporation, and surrounded by -At East- Remaining Part of Property Smt. Tarabai, At West- Land of S.No. 74/1-2 and S. No.77, At South Ramaining Part of Property of Smt. Vitthabai, At North- Land of S.No. 74/1-2.

3	30999630000458	1. Mr. Sudarshan Narayan Gaikwad. (Borrower) 2. Mr. Krishna Narayan Gaikwad (Co-Borrower)	ns.4,30,576.20 (Rupees Four Lacs Thirty Thousand Five Hundred Seventy Six And Twenty Paise Only) as on 03/09/2024	Date : 11-11-2024 Time: 05:24 PM Symbolic Possession
---	----------------	--	---	---

Description of Secured Asset:- All that piece and parcel of house no.08, Chawal No. 6, Total Admesuring Area 240 Sq.Ft, Bearning Survey No.20, Hissa No.2, Building known as Shree Sai Deep Co-op Housing Soceity, Dwaralipada, Mauje Bhal, Within The Limits of Ambernath, District Thane-(421306)

Whereas the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors, mentioned herei above have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the Borrower nentioned herein above in particular and to the Public in general that the authorised officer of Jana Small Finance Bank Limited has taken symbolic possession of the properties/ secured assets described herein above in exercise of powers conferred on hir under Section 13(4) of the said act read with Rule 8 of the said rules on the dates mer tioned above. The Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors mentioned here n above in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with th aforesaid properties/ Secured Assets and any dealings with the said properties/ Secure assets will be subject to the charge of Jana Small Finance Bank Limited.

Place:Thane Sd/- Authorised Officer For Jana Small Finance Bank Limited Date: 13.11.2024

JANA SMALL FINANCE BANK

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. <u>Branch Office:</u> Shop No.4 & 5, Ground Floor, Indiabulls Mint, Gladys Alvares Road, Hiranandani Meadows, Pokhran Road, Thane West, 400610

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to all that Kishore Thakural HUF, the owner of Flat No. 901, admeasuring 985.016 sq.ft. of carpet area on the 9th Floor of the building known as "Green Heights" constructed on the plot bearing CTS no.1 (pt) and 651/A. S.No. 41 (pt) of Village Oshiwara Taluka Andheri situatéd at New Link Road, Oshiwara, Andheri (West), Mumbai 400102 together with ten fully paid-up shares of Rs.50/- each bearing distinctive Nos. 291 to 300 (both inclusive) vide Share Certificate No. 30 issued by Lashkaria Green Heights Co-operative Housing Society Ltd. with car parking bearing no. 8 on the 3rd floor podium of the building has agreed to sell the said Flat, car parking and said shares to my client.

Any person/s having any claim/s in respect of the said flat, car parking and said shares or any part thereof by way of sale, inheritance, exchange, mortgage, charge, lease, tenancy, license, lien, gift, trust, lispendens, maintenance, possession, easement, or otherwise howsoever is requested to make the same known in writing to the undersigned at the address mentioned below, alongwith certified true copies of all the necessary documents to substantiate such claim/s, within 7 (seven) days, from the date of publication of this notice, failing which the claim/s, if any, of any person/s shall be deemed to have been waived and/or

Dated this 13th day of November, 2024

Raina Bhagatwala (Advocate) A/1402, DLH Metro View, D.N. Nagar, J.P. Road, Andheri (W), Mumbai 400053

FORMAT C - 1

Name of Candidate: Manohar Parshuram Bhoir. Address of Candidate: House No . 608, At Post Mothi Jui, Taluka Uran, Raigad

Name of Political Party: Independent

Name of Election: Maharashtra Legislative assembly 2024 Name of Constituency: 190 / Uran

I Mr. Manohar Parshuram Bhoir, candidate for the above mentioned election, declares for public Information that there are no criminal antecedents and pending cases against me.

A. Pending criminal cases

Sr. No	of	No. &	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	N.A	N.A	N.A	N.A
2	N.A	N.A	N.A	N.A

B. Details About cases of conviction for criminal offences.-Nil

Sr. No	Name of Court & Date of Order	Description of Offence & Punishment Imposed	Maximum Punishment Imposed
1	N.A	N.A	N.A

Sd/-Manohar Parshuram Bhoir.

GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED HIRA Regd. Office & Works: 428/2,Phase-I, Industrial Area, Siltara,Raipur (C.G.) Corporate Office: Hira Arcade, Near Bus Stand, Pandri, Raipur (C.G.) 492004 DDAWARI POWER & ISPA CIN No.: L27106CT1999PLC013756, Tel: 0771-4082000 Website: www.godawaripowerispat.com E mail: yarra.rao@hiragroup.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The Extra-ordinary General Meeting (EGM) of the Company will be held on Wednesday, 11th December, 2024 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to transact the Special Business as set out in the notice of EGM dated7th November, 2024.

2. The electronic copies of the Notice of the EGM have been sent through a web link to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The Notice of EGM is available on the Company's website at www.godawaripowerispat.com& website of National Securities Depository Ltd at www.evoting.nsdl.com.

3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of1st November. 2024 are entitled to cast their vote electronically on the Special Business as set out in the Notice of EGM dated 7th November, 2024 through remote e-voting facility provided by NSDL. The Members are informed that (A) Notice of EGM has been circulated through e-mail on Tuesday, 12th November, 124(A) Remote e-voting shall commence on Sunday, 8th December, 2024at 09:00 AM (IST) and shall end on Tuesday, 10th December, 2024 at 05:00 PM (IST) and thereafter remote e-voting facility shall be disabled by NSDL. (B) Members

may cast their e-vote during the EGM. 4. Any person, who acquires shares of the Company after1st November, 2024 (i.e.1st cut-off date) and holding shares including Physical Shares as of the cut-off date (i.e. 4th December, 2024), may obtain the login ID and password or information on procedure of e-voting etc., by sending a request at evoting@nsdl.co.in or rnt.helpdesk@linkintime.co.in or yarra.rao@hiragroup.com with DP ID & Client ID or Folio No.

5. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date (i.e. 4th December, 2024), only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the EGM..

6. The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the EGM. 7. Members may refer to the EGM Notice dated 7th November, 2024, &Frequently

Asked Questions (FAQ) available in the e-voting website of NSDL i.e. evoting@nsdl.co.in for detailed instructions on remote e-voting and e-voting during

8. Shareholders holding securities in Demat mode for any technical issues related to login etc through depositories (A) Members having demat account with NSDL can contact NSDL helpdesk by sending request at evoting@nsdl.co.inor contact at 022-48867000 (B) Members having demat account with CDSL can contact CDSL helpdesk by sending request at evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542-43.

For Godawari Power & Ispat Limited Place: Raipur Date: 12.11.2024 Y.C. Rao, Company Secretary

STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH, MUMBAI (05168):-6th Floor, TSBI State Bank of India "The India" (16, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai-400 020. **Phone**: 022 – 22053163 / 22053164 / 22053165 **E-mail**: sbi.05168@sbi.co.in

[See Provisio to rule 8(6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of State Bank of India, the Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", As is What is" and Whatever there is" basis on 29.11.2024 in between 11.00 am to 04.00 pm for the recovery of respective amount, due to the State Bank of India (Secured

Name of Borrower/ Director/ Guarantor	Outstanding Dues for Recovery of which Proper- ty/ies is/are being sold	Description of the immovable properties	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money Deposit(EMD) (Rs. In INR	Date & Time for inspection of the property
Mr. Anirudha Balkrishna Joshi and Mrs. Pallavi Anirudha Joshi.	Rs.2,39,80,127/- (Rupees Two Crores Thirty Nine Lakhs Eighty Thousand One Hundred Twenty Seven Only) as on 03.08.2018 as per demand notice dated-03.08.2018, with further interest, incidental expenses, costs, charges to be incurred w.e.f. 04.08.2018.	Property ID: SBIN00005861477 All the part and parcel of the property consisting of Flat No.1001, (Flat No. 1 on 10th and 11th Floor admeasuring about 124.40 sq.mtrs (1339 Sqft). Carpet Area, which is a Duplex Flat as per the Approved Plan of Municipal Corporation of Greater Mumbal (MCGM), Pragatee Gulati Heights, situated at Plot of Land bearing original Plot no. 153-B, Final Plot No.334 of TPS-II of Vile Parle bearing CTS No.1655 of Village Vile Parle (East), Near Nariman Tower, Nariman Road, Vile Parle East, Mumbai-400 057 owned by Mr. Anirudha Balkrishna Joshi and Mrs. Pallavi Anirudha Joshi.	Crores Five Lakhs Only)	Rs. 30,50,000/- (Rs. Thirty Lakhs Fifty Thousand Only)	22.11.2024 From 12:00 pm to 3:00 pm

TThe e-auction will be conducted through Bank's e-Auction service provider M/s PSB Alliance Private Limited at their web portal https://ebkray.in. The interested bidders shall ensure that they get themselves registered on the e-auction website and deposit earnest money in the virtual wallet created by service provider as pe guidelines provided on https://ebkray.in

The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting Bid documents, Training/Demonstration, Terms & conditions on online Inter-se Bidding etc., may visit the website https://ebkray.in For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India the Secured Creditor Website www.sbi.co.in . https://bank

sbi, https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others and https://ebkray.in

Statutory Notice under Rule 8(6) of the SARFAESI Act: This is also a notice to the Borrower/Guarantor of the above loan under Rule 8(6) of the SARFAESI Act 2002 about holding of Auction for the sale of secured assets on above mentioned date

Enquiry: Shri. Rambhau Taktewale, Authorised Officer, Mobile No.9561064635, Shri Rohit Burman, City Case Officer, Mobile No.9834282797

Date : 13.11.2024 Authorised Officer, Place : Mumbai

Saraswat Bank

Saraswat Co-operative Bank Ltd. (Scheduled Bank) ZONE-VII-NASHIK

F-18, 1st Floor, Utility Center, Opp. Rajiv Gandhi Bhavan, Sharanpur Road, Nashik-422002. Ph.No. (0253) 2310324/2579259

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE (as per Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

The undersigned being the authorised officer of Saraswat Co-op. Bank Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement o Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notice dated 22.07.2024 calling upon the Borrower M/s. Manjiri Enterprises through Proprietor Mr. Raja Alias Chandrahas Anant Warti & others to epay the amount mentioned in the notice being **Rs. 69,96,338/- (Rupees Sixty Nine** Lakhs Ninety Six Thousand Three Hundred Thirty Eight Only) as on 22.07.2024 plus interest and incidental charges, if any, thereon within 60 days from the date of eceipt of the said notice.

The Borrowers/Guarantors/Mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantors/Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this **12th day of** The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general are

nereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Saraswat Co-op. Bank Ltd., for an amount of being Rs. 69,96,338/- (Rupees Sixty Nine Lakhs Ninety Six Thousand Three Hundred Thirty Eight Only) as on 22.07.2024 and interest thereon.

The Borrowers/Guarantors/Mortgagors attention is invited to provisions of sub

section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured

Description of the Immovable Property All that piece of immovable property being, Plot No. 15 Survey No. 878 Hissa No. 2 of Admeasuring 285.18 Sq.Mtrs. Situated within the limits of Nashik Municipal Corporation More Particularly at Rajiv Nagar Opp Cidco Near Mumbai Agra Road Tal. & Dist. Nashik. Construction of two floor bungalow

Date: 12.11.2024 Place: Nashik

Name of the

Borrower(s) & Co-

Sd/- AUTHORISED OFFICER Saraswat Co-op. Bank Ltd., Under Section 13 (4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED **PEGASU**

55-56,5th Floor Free Press House Nariman Point, Mumbai -400021 Tel: -022-61884700 **PUBLIC NOTICE FOR SALE BY E-AUCTION**

Sale of Immovable Properties under the Securitization and Reconstruction of Financia Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8 and 9 of the

Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below mentioned Borrower(s).

Co-borrower (s) and Guarantor (s) that the below described secured assets being immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, Pegasus Assets Reconstruction Private Limited acting in its capacity as Trustee of Pegasus Group Thirty Nine Trust 1 (Pegasus), having been assigned the debts of the below mentioned Borrower along with underlying securities interest by Ratnakar Bank limited (RBL Bank Ltd.) vide Assignment Agreement dated 31/03/2021 Interest by National palls initing (NSL baint LLC) vider Assignment Agreement dates of 9703/227.

Inder the provisions of the SARFAESI Act, 2002, are being sold under the provisions of SARFAESI Act and Rules thereunder on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis along with all its known and unknown liabilities on 03/12/2024.

The Authorized Officer of Pegasus has taken physical possession of the below described secured assets being immovable property on 04/01/2022 under the provisions of the SARFAESI Act and Rules thereunder.

The details of Auction are as follows:

1) M/s. Komal Arts 2) Mrs. Aarti Amit Mehta

Borrower(s):	3) Mr. Amit Anil Mehta 4) Mrs. Rita A Mehta
Outstanding Dues for which the secured assets are being sold:	Rs.1,39,34,528.95/-(Rupees One Crore Thirty-Nine Lakhs Thirty-Four Thousand Five Hundred Twenty-Eight and Paise Ninety-Five Only) as or 10/09/2021 plus interest at the contractual rate and cost, charges and expenses (w.e.f. 11/09/2021) thereon till the date of payment and realization. (As per demand notice under section 13(2) of SARFAESI Act.) Rs. 2,26,87,687.92/- (Rupees Two Crores Twenty-Six Lakhs Eighty-Sever Thousand Six Hundred Eighty-Seven and Paise Ninety-Two Only) as or 19/08/2024 plus interest at the contractual rate and costs, charges and expenses thereon till the date of payment and realization.
Details of Secured Assets being Immovable Property which is being sold	Property Mortgaged By: Mrs. Rita A Mehta Flat No. 05, admeasuring 570 sq. Ft. carpet area, 2nd Floor, Hari Niwas, Gundavali, Azad Road, Near Maharashtra Kamgar Kalyar Mandal, Andheri East, Mumbai- 400 069.
CERSAI ID:	Security Interest ID – 400019730935 Asset ID – 200019688310
Reserve Price below which the Secured Asset will not be sold (in Rs.):	Rs. 92,25,090/- (Rupees Ninety Two Lakhs Twenty Five Thousand Ninety Only)
Earnest Money Deposit (EMD):	Rs. 9,22,509/- (Rupees Nine Lakh Twenty Two Thousand Five Hundred Nine Only)
Claims, if any, which have been put for- ward against the property and any other dues known to Secured creditor and value	Not known
Inspection of Properties:	22/11/2024 between 03:00 p.m. to 05:00 p.m.
Contact Person and Phone No:	Mr. Rohan Kadam – 9167981607 Mr. Siddhesh Pawar - 9029687504
Last date for submission of Bid:	02/12/2024 till 4:00 p.m.
Time and Venue of Bid Opening:	E-Auction/Bidding through website (https://sarfaesi.auction- tiger.net) on 03/12/2024 from 11:00 a.m. to 12:00 p.m.
antor(s) under Rule 8 an	n 15 days' notice to the aforementioned borrower(s)/co-borrower(s)/guard Rule 9 of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

For detailed terms & conditions of the sale, please refer to the link provided in Secured Credito website i.e. http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.html for detailed terms & conditions of e-auction/sale of respective property and other details before submitting their bids for tak ing part in the e-auction. Bidders may also visit the website https://sarfaesi.auctiontiger.net o contact service provider M/s. E Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger Bidder Support Nos.: Mo.: +91 9265562821 & 9374519754, Email: vijay.shetty@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net,Mr. Ramprasad Mobile No. +91 8000023297, email: support@auctiontiger.net

Date: 13/11/2024

(Trustee of Pegasus Group Thirty-Nine Trust 1)

ADARSH NAGAR BEACH CORNER CO-OP. HOUSING SOCIETY Regd. No. / Mum.W-GS/HSG (OH) 1406 Dt. 24-6-8

Prabhadevi, MUMBAI - 400 025 MRS. SHEELA VASANT NANAWARE. member of the Adarsh Nagar Beach Corner Co-operative Housing Society Limited having present address at VRAJ TIARA, Adarsh Nagar Prabhadevi, Mumbai 400 025 lying and being o the plot of land bearing C.S,No.16(part) of Mahim Division and holding original Flat No 25 of the building of the Society, has reported to the Society that the Original Share Certificate bearing No. 3 dated 23- 10-1985 for 5 (Five) Shares bearing Nos. from 11 to 15, had bee for new/duplicate Share Certificate. Upon request made by the MEMBER, the Society had ued new Share Certificate No. 24 dated 8-09 2006 for 5 (Five) fully paid-up shares of Rs. 50/each. However due to oversight the Society has mentioned shares from 24 to 28 in the new share certificate and subsequently the same were transferred to her son Mr Sameer Vasant Nanaware on 31/07/2021 as per glft deed xecuted between them and in all the documents executed by the Society instead of the original share nos. 11 to 15 allotted to the IVIEMBER.

The Society hereby declares that the correct hares allotted to the MEMBER are original share nos. 11 to 15 and the same to be incorporated in he new/duplicate share certificate and the same

to be transferred to her son.
The Society hereby invites claims an objections from claimants/objector or objectors r issuance of duplicate Share Certificate within the period of 14 (fourteen) days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/objections for issuance of duplicate Share Certificate to the Secretary of Adarsh Nagar Beach Corner Co-operative Housing Society Limited having address at VRAJ TIARA, Adarsh Nagar, Prabhadevi, Mumbai 400 025, if no claims/objections are received within the period prescribed above, the Society shall be free to issue duplicate Share Certificate in such manner as is provided under ne bye-laws of the Society. Place: Mumbai

> For and on behalf of Adarsh Nagar Beach Corner Co-operative Housing

Society Limited

(Hon. Secretary) Due on 09th December, 2024 No.1/B/WP/1208 of 2024 HIGH COURT, ORIGINAL SIDE

Bombay, 11th November, 2024. From: SHRI S. B. BHANSALI Prothonotary and Senior Master, High Court, O.S., Bombay 400 032.) M/s. Sadanand Caterers

B-10-17, 1st Floor, Room No. 4, C.B.D. Belapur, Konkan Bhavan, Navi Mumbai - 400 708. ..Respondent No. 2 And

Having last known residential Flat No. 201. Dhan Sidhi Building, New Barampur, Vasai (West) District Palghar - 400

Re: HIGH COURT O. O. C. J. INTERIM APPLICATION (L) NO. 29978 OF 2024 WRIT PETITION NO. 3575 OF

Bhaskar Mendon and Ors Versus The National Organic Chemicals Industries Ltd. and Anr.

...Respondents

I have to inform you that the abovementioned Writ Petition came up for admission before the Hon^ble Shri Justice Madhay J. Jamdar on 31st July, 2024 and 21st October, 2024 when the Hon'ble Court directed this Registry to issue notice to you, returnable on 09th

December, 2024.
You are, therefore, directed to attend the above matter personally or through an Advocate duly appointed by you on **09th December**, **2024** at 10.30 a.m. before the Hon'ble Shri Justice Madhav J. Jamdar, or thereafter as and when matter is listed before the Hon'ble Court hearing such

Please take note that if no appearance is made on your behalf either in person or by an Advocate of this Hon'ble Court duly authorized and instructed by you, it will be heard and determined in your absence and no further intimation will be given if the said matter is adjourned to next date for whatsoever reason unless and otherwise directed by the Hon'ble Court.

Master and Assistant Prothonotary

Regd. Off.: 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001, Ph.: 011-23357171, 23357172, 23705414, Web.: www.pnbh BRNACH OFFICE : OFFICE NO - 2 & 3, GROUND FLOOR, BABA HOUSE, PLOT NO. 86, B.L BAJAJ ROAD, NEAR WEH METRÓ STATION, ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400093 POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)

AUTHORISED OFFICER

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction or Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued benand notice/s on the date mentioned agains each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date or otice(s)/ date of receipt of the said notice/s.

notice(s)/ date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act reac with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property ies will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd., for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

LICITION IS	territor is invited to provisions of Sub-section (o) of Section 3 of the Act, in respect of time available, to redeem the section assets.						
Loan Account	Name & Address of Borrower &	Date of Demand	Amount O/s as on date	Date of Posses-	Property(ies) Mortgaged		
Number	Co-borrower	Notice	of Demand Notice	sion Taken	All That Piece And Parcel Of Residential Fla		
NHL/ MUM/ 0619/ 712690 B.O. Mumbai	Mr./ Ms. Naresh Kumar Babulal Shah (Borrower), Mr./Ms. Pooja Naresh Shah (Co-Borrower), Mr./Ms. Vijay Kumar Babulal Shah (Co-Borrower)	06.06.24	Rs. 34,20,290.61/- (Rupees Thirty Four Lakhs Twenty Thousand Two Hundred Ninety and Sixty One Paisa Only)	(Symbolic)	Bearing No. B/101, On The 1st Floor, Wing E Building No. 3, Admg. 1608 Sq. Builtup Area, I Building Known As Ruchi Apartment, In The Societ Known As Ruchi Co-operative Housing Societ Limited, On Land Bearing C.T.S. No. 397 To 401 C.T.S. No. 1440 & 1441, Lying At Village Eksas Situated At Borivali (West), Mumbai – 400992.		
HOU/ MUM/ 0719/ 724 659.	Mr./Ms. Ramujagir Budhuram Yadav S/o. Budhuram Mangalu Yadav (Borrower), Mrs. Ranjana Ramujagir Yadav	24.07.24	Rs. 31,69,933.75/- (Rupees Thirty One Lakhs Sixty Nine Thousand Nine Hundred	07.11.2024	Flat no. 103, 1st Floor, New Archana CHSL Koliwada, Bhayandar West, Near Shankar Mandi Thane- 401101, Maharashtra, India.		

PICICI Bank PUBLIC NOTICE-TENDER CUM E-AUCTION FOR SALE OF SECURED ASSET

Branch Office: ICICI Bank Ltd, Ground Floor, Ackruti Centre, MIDC, Near Telephone Exchange, Opp Ackruti Star, Andheri East, Mumbai- 400093

[See proviso to Rule 8(6)] Notice for sale of immovable asset(s)

E-Auction Sale Notice for the sale of immovable asset(s) under the securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

This notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of ICICI Bank Limited will be sold on 'As is where is', 'As is what is' and 'Whatever there is' as per the brief particulars given hereunder;

Si No	Name of Dorrower(s)/ Co-Borrowers/ Guarantors/ Loan Account No.	Details of the Secured asset(s) with known encumbrances, if any	Amount Outstanding	Price Earnest	Date and Time of Property Inspection	Date & Time of E-Auction
(A	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	M/s. D P Associates (Borrower)/ Mr. Devinder Singh Kirpalsingh Arora Mrs. Manjitkaur Devinder Singh Arora Mr. Samarjeet Devinder Singh Arora (Guarantor / Mortgagor) Lan No, 020305500704/ 020355000009	Flat No. 303, 3rd Floor, Dream Homes, Gauripada, Kalyan West, Survey No. 13, Hissa No. 01, Village Gauripada, Taluka Kayan, District Thane, Maharashtra- 421301 Admeasuring 392,88 Square Feet Area	020305500704 Rs. 53,19,624.14/- 020355000009 Rs. 9,06,330.67/- As on October 03, 2024	Rs. 33,00, 000/- Rs. 3,30, 000/-	December 02, 2024 From 11:00 AM to 02:00 PM	December 19, 2024 From 11:00 AM onward

The online auction will be conducted on the website (URL Link-https://disposalhub.com) of our auction agency M/s NexXen Solutions Private Limited. The Mortgagors/ Noticees are given a last chance to pay the total dues with further interest by December 18, 2024 before 05:00 PM else the secured asset(s) will be sold as per schedule.

ICICI Bank Limited

Notice is hereby given that our clients Mr Rasikvallabh G Goswami & Mrs. Chandrika F Goswami & Mr. S Goswami are the joint an absolute owners of Flat No C/302 Shiv Darsha II Co-operative Housing Society Ltd and an jointly holding Five Fully Paid up Shares of R 50/- each numbered from 321 to 325 both inclusive in Shiv Darshan II Co- operative
Housing Society Ltd under share certificate number 065 issued by the Society. The Shar certificate number 065 has been misplace which is in respect of Flat no C/302. The Shar certificate originally stand in name of our client Mr. Rasikvallabh G Goswami & Mrs. Chandrik R Goswami & Mr. S Goswami. Our Client lesire to apply for duplicate share certifica bearing share certificate no. 065.

PUBLIC NOTICE

any person having any claim, right title an nterest of whatsoever nature over the same by vay of sale mortgage, lien, exchange inheritance, trust, legacy, maintenance, adverse possession lease leave and license lien o otherwise however and hereby required to make known to the undersigned Advocate on the above mentioned address within 14 days from date of publication with documentation proof in writing or legal evidence and after expiry of 14 days' notice period any claim from any person or public will not be entertained and said the society will issue duplicate share certificate in the name of clients Mr. Rasikvallabh G Goswami & Mrs. Chandrika F Goswami & Mr. S Goswami.

Date: 13/11/2024 CONSULATE GENERAL OF INDIA DUBAI

NOTICE

No. DUBA/Cons/434/MR/2024-(61)

Dated: 08/11/2024 ROHAN CHANDRAKANT , S/6 CHANDRAKANT BHATIA Resident o FLAT NO. 303, ANUPAM HSG SOCIETY, SRINAGAR COLONY, M.G ROAD, GOREGAON WEST, MUMBA PIN:-400104, MAHARASHTRA, INDIA Present Address: Flat No. 10 ORCHID RESIDENCE, LATIFA HOSPITAL STREET, AL JADDAF, DUBAI, UAE and MISS. LAKSHA AILANI, Daughter of MULIDHAR AILANI URESH SURESH esident of ANNETTE VILLA 2nd FLOOR, 191 MANCHUBHAI ROAD MALAD (E), MUMBAI, PIN:400097

MAHARASHTRA, INDIA. Presen address: 111, HAMRIYA 640, 7th STREET, AL HAMRIYA, BUR DUBAI DUBAI, UAE.

Above mentioned Indian National are presently residing in the UAE have given notice of intended marriage between them under the foreign arriages act, 1969.

If anyone has any objection to th proposed marriage he/ she should fil the same with the undersigne according to the procedure laid dow inder the act/ rules within thirty day from the date of publication of this notice on Email: cons1.dubai@mea.gov.in, ons3. dubai @mea.gov.in.

(Pabitra KR. Majumder Marriage Office Consulate General of India P.O. BOX: 737, DUBAI (UAE) FAX NO. 0097143970453 Email:cons1.dubai@mea.gov.in cons3.dubai@mea.gov.in

IN THE COURT OF SMALL **CAUSES AT MUMBAI**

APPEAL NO. 36 OF 2023 R. A. E & R. SUIT NO. 795 / 1226 OF 2009

Seth Keshavji Jadhavji Trust, Trust registered under the Bombay Public Trust Act, bearing Registered No. 106, Having office at 112, Yusuf Meherali Road, Masjid Bunder, Mumbai-400003.

Shashi Age :- 72 years, occ :

business, The Trustee of the Plaintiff No. 1. Residing at 203/16, Sahakar Niketan, Wadala, Mumbai-400011.

(Deleted)

Vanraj Morarji Lilani Age :- 65 years, occ :business. The trustee of Plaintiff No. 1, Both Residing at Meghji Gopalji Bungalow, Ground Floor, 91-L Jagmohandas Marg, Mumbai-....Appellants

(Orig. Plaintiffs)

Versus Shamanji Shreeji Motilal Maharaj, Age and occupation not known, adult,

name, age and occupation not known, Both Having address Room No. 60, First Floor, 34-A, Khadak Street, Masjid Bunder Road, Mumbai-400009.

(Org. Defendants)

The Respondent No. 2 abovenamed

WHEREAS, the Appellants

(Org. Plaintiffs) abovenamed has preferred the above appeal against the Judgment and order dated 11th August, 2020 passed by the Hon'ble Trial Judge presiding in Court Room No. 26 in R.A.E & R. Suit No. 795/1226 of 2009 in respect of suit premises viz. Room No. 60. situated on first floor at 34-A, Khadak Street, Masjid Bunder, Mumbai-400009, whereby, the suit has been decreed, on the grounds mentioned in the Appeal AND WHEREAS, the said

Appeal has been admitted on 14th March, 2023 and Notice is ordered to be issued to the Respondents. In pursuance of the said order, this Notice is hereby given to you that you are hereby required to appear before the Hon'ble Appellate Bench presiding in Court Room No. 5 on the 2nd Floor, Old Building, Small Cause Court, L. T. Marg, Mumbai-400002, in person or by Pleader duly instructed on 14th November, 2024 at 2.45 p.m., when the case will be placed before the Court for order or thereafter and to show cause why an order should not be issued, as prayed for by the Appellants (Org. Plaintiffs) abovenamed. If you fail to appear and show cause, as aforesaid, this Court will issue an order as prayed for by the Appellants or such Order as the Court may deem fit and proper in the matter You may obtain the copy of

said Amended Appeal Memo from Court Room No. 5 of this Court. Given under Seal of the Court

> This 15th day of July, 2024. Registrar

State Bank of India

Date: November 13, 2024

B.O. W/o. Ramujagir Budhuram Mumbai Yadav (Co-Borrower) PLACE:- MUMBAI, DATE:- 11.11.2024

Thirty Three and Seventy Five Paisa Only)

E-Auction Sale Notice for the sale of immovable asset(s) under the Securitisation and Reconstruction of Financial

SD/- AUTHORIZED OFFICER. PNB HOUSING FINANCE LIMITED

with further interest by December 18, 2024 before 05:00 PM else the secured asset(s) will be sold as per schedule. The prospective bidder(s) must submit the Earnest Money Deposit (EMD) Demand Draft (DD) (Refer Column E) at ICICI Bank Limited, Level 3-5, 74 Techno Park, Opp SEEPZ Gate No. 02, Marol MIDC, Andheri East, Mumbai-400 093 on or before December 18, 2024 before 04:00 PM Thereafter, they have to submit their offer through the website mentioned above on or before December 18, 2024 before 05:00 PM along with the scanned image of the Bank acknowledged DD towards proof of payment of EMD. In case the prospective bidder(s) is/ are unable to submit his/ her/ their offer through the website, then the signed copy of tender documents may be submitted at ICICI Bank Limited, Level 3-5, 74 Techno Park, Opp SEEPZ Gate No. 02, Marol MIDC, Andheri East, Mumbai-400 093 on or before December 18, 2024 before 05:00 PM. Earnest Money Deposit DD/PO should be from a Nationalised/Scheduled Bank in favour of ICICI Bank Limited* payable at Mumbai.

For any further clarifications in terms of inspection, Terms and Conditions of the E-Auction or submission of tenders, contact ICICI Bank Employee Phone No. 77304915594/8879770306/8104548031/9004392416

Please note that Marketing agencies 1. M/s NexXen Solutions Private Limited 2. Augeo Assets Management Private Limited 3. Matex Net Pvt, Ltd., have also been engaged for facilitating the sale of this property.

The Authorised Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons. For detailed Terms and Conditions of the sale, please visit www.icicibank.com/n4p4s

Date: November 13, 2024

Authorized Office

for Prothonotary and Senior Master

Mr. Harji Roophi Saha, adult,

....Respondents

विस क्षेत्र के सभी स्कूलों को सर्वसुविधायुक्त बनाना पहली प्राथमिकता : मंत्री टंकराम

बलौदाबाजार, 12 नवंबर लिए 3 करोड 45 लाख (देशबन्ध्)।शिक्षा, खेल और युवाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्व, आपदा प्रबंधन, एवं खेल युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने हाल ही में घोषणा किया है कि विधानसभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को सर्वस्विधा युक्त बनाना उनको पहली प्राथमिकता है। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि जब स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तब बच्चों के लिए पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अनुकुल वातावरण बन सकेगा। स्कुलों में बिजली, पानी, खेल के मैदान, स्मार्टे क्लास, स्मार्ट बोर्ड, प्रायोगिक कक्ष, अतिरिक्त कक्ष, प्रायोगिक सामग्री, रंगमंच, प्रार्थना शेड के साथ-साथ शिक्षक व्यवस्था का ध्यान रखा

स्वीकृत- पूर्व में भी बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के लगभग 25 स्कूलों में प्रार्थना शेड, अतिरिक्त कक्ष और रंगमंच के निर्माण के लिए 4 करोड रुपये की स्वीकृति दी गई थी और अब इस निर्माण कार्य को परा किया जा चुका है।

मंत्री वर्मा ने यह भी घोषणा की कि बलौदाबाजार विधानसभा के 23 अन्य स्कूलों में प्रार्थना शेड के निर्माण के लिए 3 करोड 79 लाख 45 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन स्कृलों में ग्राम जरौद, शिकारी केसली, हथबन्द, लट्वा, नवापारा, मोहभट्टा, भटभेरा, खपराडीह, पंडित चऋपाणि बालौदाबाजार, रसेडा, चांपा, सलौनी, करमदा, मोहरा, सुहेला, झीपन, आमाकोनी, फरहदा, खिलोरा, बरडीह, गांधी चौक



सकें। उन्होंने स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

निर्माण कार्यों की स्वीकृति से भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में हर्ष व्याप्त-बलौदाबाजार विधानसभा में लगातार विकास कार्यों और निर्माण कार्यों की स्वीकृति से भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। उन्होंने मंत्री वर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि टंकराम वर्मा के कुशल नेतृत्व


बालौदाबाजार, सेम्हराडीह और में बलौदाबाजार तेजी से विकास करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित होंगे। मंत्री वर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि इन निर्माण कार्यों से बच्चों को शिक्षा में अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा।

> निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण करने के निर्देश-इस तरह के शिक्षा एवं बुनियादी ढांचे के विकास से स्कुलों की स्थिति में सुधार आएगा और बच्चों की पढाई में भी उत्साह बढ़ेगा। मंत्री वर्मा ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द परा करें ताकि छात्र-छात्राओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। बलौदाबाजार विधानसभा में शिक्षा और खेल की सुविधाओं का विस्तार करने के साथ-साथ युवाओं के कल्याण के लिए इस प्रकार की पहल से समाज में सकारात्मक

अवैध रेत उत्खनन में लगे चैन माउंटेन मशीन जब्त

नवंबरं (देशंबन्धु)। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती से नियंत्रण किये जाने हेत् 12 नवंबर को खनिज एवं राजस्व टीम द्वारा ग्राम मोहकम स्थित महानदी से अवैध रेत उत्खनन

करने वालों पर कार्यवाही करते हुए अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त 01 नग चैन माउंटेन मशीन को जप्त किया गया । चैन माउंटेन मशीन को अवैध उत्खनन कर्ताओं द्वारा झाडियों में छुपाया गए था जिसे रात्रि में निशान के आधार पर ढूंढा गया।लावारिश हालत में ग्रामीणों के समक्ष जप्त किया गया।रेत के अवैध उत्खनन को बंद कराने खनिज विभाग ने जोबा मार्ग में भारी वाहनों को नदी क्षेत्र में घुसने से रोकने स्टॉपर लगाया



जारी कर अवैध उत्खनन परिवहन में ग्रामीणों को सहयोग न करने तथा इस संबंध में मुनादी कराने निर्देशित किया गया है। उक्त कार्यवाही में राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार टेकेंद्र नुरेटी नायब तहसीलदार मोहित अमिला, सहायक खनि अधिकारी

रसेला में 750 कट्टा अवैध धान जप्त लड़<mark>की पैदा करने को लेकर प्रताड़ना से दुखी महिला ने की आत्महत्या</mark>

नवंबर (देशबन्ध्)। जिले में धान खरीदी शरू होने के पहले ही अवैध धान का परिवहन और भंडारण तेज हो गया है। जिला प्रशासन भी इसके रोकथाम के

लिए सिक्रियता से कार्यवाही कर रहा हैं। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में अवैध धान खरीदी, बिक्री एवं भंडारण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस कडी में जिले के सीमावर्ती क्षेत्र देवभोग के बाद अब जिला प्रशासन ने मंगलवार को छुरा ब्लॉक के ग्राम रसेला में बड़ी कार्यवाही की है। यहां उडनदस्ता दल द्वारा छापामार कार्यवाही के दौरान 750 कट्टा अवैध धान जप्त किया गया।

दरअसल तहसीलदार रमेश मेहता के नेतृत्व में



पर ग्राम का निवासी हरिहर यादव द्वारा किसानों से धान खरीदना स्वीकार किया गया। लेकिन हरिहर यादव के पास फुटकर धान खरीदने का लाइसेंस नहीं है। इस प्रकार अवैध रूप से धान का ऋय एवं भण्डारण करना पाया गया। उक्त भंडारित धान को जप्ती कर भवन को सील किया गया। तहसीलदार ने बताया कि उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।इस कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार, स.वि. अधिकारी, मण्डी प्रभारी, ग्राम कोटवार एवं अन्य ग्रामवासी

साहनी सामुदायिक

भवन का औचक

निरीक्षण किया गया।

भवन के अंदर लगभग

750 कट्टा धान अवैध

रूप से डम्प किया जाना

पाया गया। पूछताछ करने

समीपस्थ ग्राम परसदा कला में एक महिला ने फंसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका की माँ ने इस मामले में ससुराल वालों पर प्रताडना का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित आवेदन दिया था। पुलिस ने मामला संवेदनशील होने के कारण जांच शुरू की। जांच में आरोप साबित होने पर परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम परसदाकला में नंदनी देवांगन ने आत्महत्या कर ली। मृतिका की माँ रूखमणी बाई निवासी ग्राम पितईबंद थाना राजिम ने नंदनी के पित सोहन देवांगन द्वारा शराब पीकर आये दिन मारपीट करने के साथ साथ ससुर मस्तु देवांगन और सास दशोदा द्वारा झगडा, गाली गलौज कर प्रताडित करने का आरोप लगाते हुए थाने में इसकी शिकायत दर्ज



आत्महत्या किये पुलिस ने किया आरोपियों जाने की सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा

को किया गिरफ्तार

को बहुत बड़े अधिकारी होने का

धौस दिखाते हुए मेडिसिन स्टाक

को गलत बताते हुए क्लिनिक

सील करने की धमकी दी और

अपने बातों के झांसे में लेकर

मामला सेटल करने के लिए

धोखाधड़ी पूर्वक साढ़े 7 लाख

हुए थाना फिंगेश्वर प्रभारी निरीक्षक पवन वर्मा को मतिका के आत्महत्या के मामले मामले की संवेदनशीलता को संज्ञान में लेते का वितृत जांच कर प्रकरण में दोषियों के लड़की पैदा करने को लेकर मारते थे

जांच के दौरान मतिका के बच्चों से पुछताछ करने पर बताया कि दादी और दादा हमेशा मां को लड़की- लड़की पैदा किये हो तुमसे कोई मतलब नहीं है कहकर आये दिन लड़ाई झगड़ा करते थे। साबित होने पर कि परिवार वालों के लडाई झगडा और प्रताड़ित करने से तंग आकर नंदिनी ने आत्महत्या की है थाना फिंगेश्वर में मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। गवाहों के कथन एवं सबूतों के आधार पर महिला के पित सोहन देवांगन उम्र 28 वर्ष, ससुर मस्तु राम देवांगन उम्र 70 वर्ष, सास दशोदा उर्फपुत्री बाई देवांगन उम्र 65 वर्ष को अपराध धारा 108, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक

मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग आवश्यक है: कौशल वर्मा ऋषि सत्ताओं द्वारा दिये गये। दिव्य ज्ञान का



नवं बर दशबन्ध्) । आखल विश्व गायत्री परिवार

त्रलौटाताजार

शांतिक्ज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री शक्तिपीठलवन रोड बलौदाबाजार में 10 नवंबर दिन रविवार को अखण्डज्योति पत्रिका पाठक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।इस अवसर पर गायत्री परिवार सहित ब्लाक के अखण्डज्योति, युग निर्माण एवं प्रज्ञा अभियान पत्रिका के पाठकगण सम्मिलित हुए।सम्मान समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन कर किया गया। तत्पश्चात महिला मण्डल बलौदाबाजार द्वारा प्रज्ञागीत प्रस्तुत किया गया एवं समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में जिला प्रतिनिधि कौशल वर्मा सह समन्वयक युवा प्रकोष्ठ जिला

श्री वर्मा द्वारा स्वाध्याय पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि ''मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिये स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। जिस तरह लोग शरीर को सजाने संवारने को महत्व देकर शरीर को स्वस्थ, निरोगी एवं सशक्त बनाने की बात भूल जाते हैं उसी तरह लोग मन की चंचलता

बलौदाबाजार, भूषणलाल साहू सेवानिवृत्त

शिक्षक, गोविंद राम वर्मा उपस्थित रहे।

अखण्ड ज्योति पत्रिका पाठक

को महत्व देकर मनमानी करने में लग जात ह । मनाबल बढ़ान और मन को स्वच्छ एवं

सुसंस्कृत बनाने की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस भूल के कारण जीवन में कदम कदम पर विडंबनाओं में फंसना पडता है।शरीर के प्रति कर्तव्य पालन करने की तरह मन के प्रति भी हमें अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना चाहिए। कुविचारों और दुर्भावनाओं से मन गंदा, मलिन और पतित होता है। मन को सही दिशा देते रहने के लिये स्वाध्याय की वैसी ही आवश्यकता है जैसे शरीर को भोजन देने की। जीवन की समस्याओं को सही ढंग से सुलझाने वाली उत्कृष्ठ विचारधारा की पुस्तकें पूरे ध्यान, मनन और चिंतन के साथ पढ़ते रहना ही स्वाध्याय है। भूषणलाल साह द्वारा अखण्ड ज्योति पत्रिका के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि बसंत पंचमी सन 1940 फ्री गंज आगरा से विधिवत अखण्डज्योति पत्रिका की शुरूवात हुई जो कि अखण्ड ज्योति वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को प्रतिपादित करने वाली पत्रिका है। यह पत्रिका कोई कहानी, उपान्यास नहीं वरन पं.श्रीराम शर्मा आचार्य के तप साधना की प्राण उर्जा विचार के रूप में है जो हिमालय की

प्रकाश स्तंभ है जो मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाते हुए मानव जीवन संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान देता है।राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यवाहक शेषाद्रि के अनुसार यह पत्रिका राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाली पत्रिका है तथा मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग अवतरण की कल्पना को साकार करने वाली है। जबिक गोविंद राम वर्मा एवं सोहन लाल यादव सेवा निवृत्त शिक्षक ने अखण्डज्योति पत्रिका के महत्व एवं उपयोगिता पत्रिका पाठक सम्मान समारोह में सभी

पाठकों का मंत्र दुपट्टा, हारिये न हिम्मत पत्रिका, मंत्र लेखन पस्तिका के साथ मंगल तिलक कर सम्मानित किया गया। पाठकों द्वारा पत्रिका के संबंध में विशेष रूप से रामाधार पटेल ब्यूरोचीफ देशबंध. पं.अशोक तिवारी हनुमान मंदिर, दया सागर वर्मा, धीरेन्द्र सिंह वर्मा, श्रीमती राजेश्वरी पटल आदि ने अपनी अनुभूतिया एवं विचार रखे। जिसमें सभी ने एक स्वर में कहा कि यह पत्रिका चिंतन, चरित्र व व्यवहार को सुधारने वाली पत्रिका है जिसमें हमें चौराहा में फंसे होने की स्थिति में सही मार्ग पर चलने का मार्ग दर्शन प्रदान करती है। जिससे हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पाठक सम्मान समारोह में प्रेरित होकर युग ऋषि के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिये श्रीमती शैली अग्रवाल द्वारा दो वर्ष के लिये 50प्रज्ञा अभियान, रूखमणी साहू द्वारा 50 युग निर्माण पत्रिका, श्रीमती राजेश्वरी बघेल द्वारा 10 नये पाठक तैयार करने एवं श्रीमती पिंकी यादव द्वारा 50 हजार रूपये का मंत्र लेखन पुस्तिका नि:शुल्क वितरित करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला मण्डल की बहनों के द्वारा किया गया।जिसमें विशेष रूप से श्रीमती उषा सिन्हा, छाया पटेल, पिंकी यादव, पुष्पा वर्मा, निर्मेला वर्मा, रमण साहू, शकुन साहू, रूखमणी साहू, राजेश्वरी बघेल, शैली अग्रवाल, पुष्पा साहू, प्रेमलता साहू, आरती सराफ, ऋतु यादव, प्रेमबती साहु, भोजा विश्वकर्मा आदि का विशेष योगदान रहा।

न्यायालय तहसीलदार भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

अन्य 03 सभी निवासी झलेलाल मंदिर के पास महासती वार्ड के द्वारा ग्राम सुरूजपुरा प.ह.नं. ०४ रा.नि.मं. भाटापार तहसील भाटापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 460/1/3/5 रकबा 0.308 हे0 भूमि है जो कि वर्तमान में विऋेतागण सुधीर जैन पिता कैलाशचंद जैन व अजय पाण्डेय पिता द्वारिका प्रसाद पाण्डेय के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज् है। आवेदित भूमि को आवेदक कमांक 04 व आवेदकगण कमांक 01 के पति तथा कमांक 02 एवं 03 के पिता मृतक हरिश बजाज के द्वारा अपने जीवन्तकाल में दिनांक 15.05.2014 के माध्यम् से उक्त भूमि को विक्रेता सुधीनजैन, अजय पाण्डेय से कय किया गया था। रजिस्टी उपरांत केतागण के द्वारा राजस्व अभिलेख भा राजस्त्र उपरात कर्तानान के द्वारा राजस्व जानराख में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाये । केतागण आवेदक कमांक 04 एवं मृतक हरिश के वारिसान आवेदक कमांव 01 से 03 के द्वारा उक्त भूमि को पंजीकृत विऋय पत्र दिनांक 15.05.2015 के आधार पर अपने नाम पर गमांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय पंजीकृ विऋय पत्र की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बी-1, खसरा की नकल सहित आवेदन प्रस्तुत किया

ोन है तथा दिनाक 22/11/24 .को सुनवाई हेतु नियत है। . उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था को दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना है तो सुनवाई हेतु नियत दिनांक 22/11/24 तक स्वयं या अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से नियत समय व स्थान में दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चातु प्राप्त / दावा अपित पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार आजू दिनांक 06/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहितजारी किया गया

तहसीलदार

It is informed to the general ١, public that NO 4/KH WARD NO 06 BASTAR (C.G.) 494001 BADRUDDIN so in future

HABIBUDDIN KHAN

HOUSE NO 4/KH BHAGAT SINGH WARD NO 06 JAGDALPUR BASTAR (C.G.)

ड्रग इस्पेक्टर बनकर साढ़े 7 लाख की ठगी प्राप्त हुई थी यह राशि मेडिसिन पुलिस को सीसी फूटेज भी **महासम्द,** 12 नवं बर इंस्पेक्टर बताकर मेडिसिन स्टाक चेक करने कहा और अपने आप कंपनियों में देने के लिए रखा था।

(देशबन्धु) खुँद को ड्रग इंस्पेक्टर बताकर एक व्यक्ति ने कुम्हारपारा निवासी आयुर्वेदिक क्लिनिक श्रीराम केयर संचालक शेष नारायण गुप्ता से साढे ७ लाख रुपए की ठगी कर ली। इस मामले में सिटी कोतवाली ने बीएनएस की धारा 318 (4) 319 (2) दर्ज कर विवेचना में लिया है।

प्रार्थी श्री गुप्ता ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि वे वार्ड नंबर 24 कुम्हारपारा में रहते है तथा आयर्वेदिक क्लिनिक का संचालन करते है। 11 नवंबर की सुबह करीब 11.10 को अपने क्लिनिक में मरीज देख रहा था उसी एक व्यक्ति अंदर आया और अपने आपको ड्रग

NAME CHANGE public that I. MANOJ KOCHAR S/O PUKHRAJ JAI KOCHAR resdent of WARD NO. 36 TELIPARA RAJNANDGAON (C.G.) have changed my old name MANOJ KOCHAR S/O PUKHRAJ JAI KOCHAR so in uture I should be recognized by new name that is MANOJ KUMAR JAIN S/O PUKHRAJ JAI KOCHAR in all Government and other documents.

MANOJ KUMAR JAIN WARD NO. 36 TELIPARA

RAJNANDGAON (C.G.)

NAME CHANGE

SHAKE HABIBUDDIN S/O SHAKH BADRUDDIN resident of HOUSE BHAGAT SINGH **JAGDALPUR** have changed my old name SHAKH HABIBUDDIN S/O SHAKH should be recognized by my new name that is HABIBUDDIN KHAN S/O SHAKH BADRUDDIN in all Government and other

494001

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। शिकायतकर्ता ने

public that I, ROHIT KUMAR

S/O RARUHA RAM SAHU resi-

dent of HOUSE NO. -53, WARD

NO.-02. VTC- NANKATTHI, PO.

NANKATTHI, DURG, DISTT-

DURG (C.G.) 491001 have

changed my old name ROHIT

KUMAR S/O RARUHA RAM

SAHU so in future I should be

recognized by my new name that

RARUHA RAM SAHU in all

ROHIT KUMAR

SAHU

HOUSE NO. -53, WARD NO.-

02, VTC- NANKATTHI, PO.

NANKATTHI, DURG, DIST-

DURG (C.G.) 491001

Government

रुपए ले लिया। उन्होंने एफआईआर में कहा है कि मै आयुर्वेदिक चिकित्सक हं तथा मरीजों को मेडिसिन प्रदान करता हूं। मेडिसिन से उक्त राशि

आम सूचना

क्षकार श्री राहुल देवांगन पिता स्व. सुरेन्द्र देवांगन वासी मोतीपुर के द्वारा विक्रेता- श्रीमती वैशाली बोपकर पति श्री कमल किशोरे चोपकर निवासी गणपत चौक, हीरापुर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) के स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति जे ोजा मोतीपुर प.ह.नं. 00034 रा.नि.मं. मोतीपुर, तह व जिला राजनंदगांव (छ.ग.) से दिनांक 27/02/202 क्रय किया गया था। यह की विक्रेता द्वारा पूर्व विक्र विलेख की मूल प्रति मुझे प्राप्त हुई थी जिस विवरण पुस्तक क्र. 9347 पृष्ट क्र. 1 से 6 दस्तावेज क्र. 6498 दिनांक 24 03 2012 जो की मेरे पक्षकार दारा घर की पाफ सफाई में कहीं गम हो गया है। जिसकी सुचन मेरे पक्षकार द्वारा चिखली थाना राजनांदगांव में दिनांक 25.09.2024 को दे दी गई है। उक्त संपत्ति को मेरे ।क्षकार द्वारा इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पो. प्रा. लि. ^३ बंधक रखा जा रहा है। अतः उपरोक्त वर्णित संपत्ति के प्रधिकार के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्थ निकाय बैंक शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों सेत प्राह्कार, वारिसान आदि किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस आम सुचना के प्रकाशन के 0: (तीन) दिवस के भीतर अपने आपत्ति मय दस्तावेड . ोरे उपर लिखित पत्ते पर कार्यालीन समय पर मेरे समक्ष प्रस्तत करें अन्यथा अवधि अवसान पश्चात मेरे गक्षकार द्वारा उक्त भूमि का पंजीयन निष्पादन अपने पक्ष में करा लिया जावेगा ।

उसके पश्चात् प्रस्तुत दावा आपित्त शून्य व अवैध मानी जाएगी व मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से की गयी आपत्ति खंडन मान्य नहीं होगी। सो सूचना जाने।

दिनांक 12.11.2024 भवदीय ज्योति ताम्रकार

अधिवक्ता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि में कारगण ए.यू स्माल फायनेंस बँक रायपुर ब्रांच राजि इ.ग. के एक ऋणी आवेदक श्री अर्जुन साहु पिता श्री पंच

साह जाति तेली निवासी फिंगेश्वर तहसील फिंगेश्वर जिल साहुं जाति तथा । निवास । फंगरबर तहसाल । फंगरबर । जल । गिरायार्वेट हैं । के इक व स्वासित्त का आवासीय आवाद भूमि, जो मुख्यमंत्री आवादी पट्टा नगरीय केत आवादी भूमि पर भूमि स्वामि अधिकार प्रदत्त करने का प्रमाण पत्र के छटा, भू, उत्तरस्व सहिता 1959 की धारा 246 के अन्तर्गत् उक्त सहिता में निर्दिष्ट निवंधो एवं शतों के अधीन भूमि वामि स्वत्व पर भु- राजस्व मुक्त धारण करने की अनुर्मा री गई है जिसे न्यायालय कलेक्टर गरियाबंद जिल चा १३ है जिस न्यास्तिय करिस्टर गास्त्रीबर्ध 2017-1: गरियार्विद के प्रकरण क्रमांक 81/1-66 वर्ष 2017-1: पट्टा क्रमांक 044054 है जिसका खसरा नं. 361/56 रकट 280 वर्गमीटर है जो कि ग्राम फिंगेश्वर तहसील फिंगश्व जिला गरियार्बेट छ.ग्. में है तथा उक्त आबादी धुमि प कान निर्मित स्थित है। उक्त संपत्ति भूमि का चौहद्दी उत्त में रास्ता, दक्षिण में राजेन्द्र का भुमि पूर्व में ठाकुर राम कं भूमि, पश्चिम में दुकालु की भूमि स्थित है। यह कि उपरोक्त सपत्ति को जो ग्राम फिंगेश्व प.ह.नं, 09 रा.नि.मं. व तहसील फिंगेश्वर जिला गरियार्वर

छ.ग. स्थित भुमि संपत्ति को श्री अर्जुन साहु पिता श्री पंच साहु जाति तेली निवासी फिंगेश्वर तहसील फिंगेश्वर जिल गरियाबंद छग. के द्वारा पंजीकृत राजिस्ट्ड बंधक ए.र स्माल फायनेंस बैंक रायपुर ब्रांच राजिन के पक्ष में निष्पादि कर उक्त भुमि /संपत्ति जिसका खसरा नं. 361/56 रकः 280 वर्गमीटर / 3013,89 वर्गफीट हैं। उक्त संपत्ति व बंधक रखकर ऋण लिया जा रहा है जिसका पंजीकृ जिस्टर्ड बंधक पंजीयन दिनांक 08.11.2024 को कि राशस्ट अथक पंजायन (द्यांक 08.11.2024 का ।क्य. गाय है जिसका पंजीयन क्रमांक प्रमुक्त क्रमांक 1. वोल्यु क्रमांक 2238 पृष्ठ संख्या 290 सं. 308. दस्तावेज क्रमांब सी.जी. 2024-25-144-1-1411 दिनांक 08.11.202 पंजीयन क्रायांत्वम राजिम जिला गरियावंद छ.ग. है। अत: उपरोक्त प्रारिध्यतियों में जिस किसी व्यक्ति

नंस्था शासकीय व अर्द्धशासकीय निकाय, कंपनी निग गहकार. फर्म आदि को किसी भी प्रकार का दावा आर्पा ताकुका, रुग्न आपि का निक्ता भा क्यांत्र का पान आपता हो तो आम सूच्ना प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों कि भीतः मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित होकर लिखित में दावा आपत्ति दर्ज करावे। समयाविध पश्चात उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार द्वारा बंधक रखकर ऋण की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। तत्पश्चात् किया गया कोई भी दावा/आपत्ति अवैध व शुन्य माना जावेगा जो मेरे पक्षकार बैंक पर बंधनकारी नहीं होगा। अत: सूचना जाने।

थान- महासमुन्द नांक- 12-11-2024

राजेन्द्र सिंह बांसवार (अधिवक्ता) कार्यालय नयापारा वार्ड नं. 7 शिव चौंक के पास महासमन्द तहसील व जिला महासमुन्द (छ.ग.), मो.नं. 9826313232 उपलब्ध कराया है जिसमें उक्त आरोपी स्वीफ्ट डिजायर कार में आया था।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी **NAME CHANGE** सरसींवा जिला सारंगढ बिलाईगढ छ.ग. It is informed to the general

रा.प्र.कं. बी-121/2023-24 ग्राम पीपरडीह प.ह.नं. 20

एतद द्वारा सर्व साधारण को सचित किया जाता है कि आवेदक जगेश्वर पटेल पिता स्व. नारद पटेल जाति मरार निवासी पिपरडीह तहसील सरसींवा जिला सारंगह बिलाईगढ छ.ग. के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत मृत्यु दिनांक 22.02.2020 को ग्राम पिपरडीह में होने के कारण उनके मृत्यु पंजीयन किये जाने हेत् आवेदन पत्र मृत्यु रजिँस्ट्री अधिनियम अंतर्गत 13(3) की धारा 1 के तहत प्रस्तुत

किया है। अत: उक्त संबंध में जिस किसी भी ईच्छक व्यक्ति या कोई संस्था को दावा आपत्ति करना हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से लिखित में ठोस दस्तावेज के साथ दावा आपत्ति नियत दिनांक 14.11.2024 को प्रात: 11 बजे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर कोई प्रकार की विचार

आज दिनांक 11 11 2024 को न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी

स्वीकार नहीं किया जायेगा।

सील

HIRA गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 428/2, फेस-1, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉर्पोरेट कार्यालयः हीरा आर्केड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492004 सीआईएनः L27106CT1999PLC013756, दूरभाषः 0771-4082000,

वेबसाइटः www.godawaripowerispat.com ईमेलः yarra.rao@hiragroup. असाधारण आम बैठक की सूचना एवं ई वोटिंग सूचना एतद द्वारा सचित किया जाता है कि:

1. कंपनी की असाधारण आम बैठक (ई.जी.एम), बुधवार, 11 दिसम्बर, 2024 को प्रातः 11:30 बजे (भारतीय मानक समय), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए होना सुनिश्चित हुई है, जिसमें ई.जी.एम. की सूचना दिनांक 7 नवम्बर, 2024 के अनुसार वर्णित विशेष व्यवसाय को कार्यान्वित किया जाना है।

2. ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां एक वेब लिंक के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। कंपनी की ई.जी.एम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.godawaripowerispat.com एवं www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

3. निर्णायक तिथि 4 दिसम्बर, 2024 कों जिन अंशधारकों ने अंश भौतिक रूप में या डीमैट रूप में रखें है, वह अपने मत का प्रयोग विशेष व्यापार जैसा की ईजीएम के नोटिस दिनांक 7 नवम्बर, 2024 में बताया गया है, वह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना मत डाल सकते हैं। सदस्यों को सचित किया जाता है कि (अ) नोटिस मंगलवार, 12 नवम्बर, 2024 को केवल ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है और इलेक्टॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया रविवार, 8 दिसम्बर, 2024 प्रातः 09:00 (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और मंगलवार 10 दिसम्बर, 2024 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी और उसके पश्चात मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी (ब) सदस्य ईजीएम के दौरान के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. यदि कोई व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण (भेजने की अंतिम तिथि 1 नवम्बर, 2024) के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट ऑफ डेट (4 दिसम्बर, 2024) पर शेयर रखता है, वे व्यक्ति अपनें डीपी आईडी और ग्राहक आईडी या फोलियो नं के साथ evoting@nsdl.co.in या rnt.helpdesk@linkintime.co.in या yarra.rao@hiragroup.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, मतदान की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या/ शिकायतों के मामले में लॉगिन आदि से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

5. व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है कट-ऑफ की तारीख तक, केवल उन व्यक्तियों को ई.जी.एम में मतदान के साथ-साथ दुरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

 सदस्य,दुरस्थ ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सभा में भाग ले सकतें है, किंतु उन्हें सभा में पुनः मत देने की अनुज्ञा नहीं होगी।

7. सदस्यों से अनुरोध है की वह मतदान की प्रक्रिया के लिए ई.जी.एम के नोटिस दिनांक 7 नवम्बर, 2024 एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्र में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका अनुपालन करे।

8. मतदान की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या/ शिकायतों के मामले में लॉगिन आदि से संबंधित (अ) सदस्य जिनका डीमैट खाता एनएसडीएल के साथ है वे हेल्पडेस्क evoting@nsdl.co.in और नंबर 022 - 48867000 में संपर्क कर सकते हैं। (ब) सदस्य जिनका डीमैट खाता सीडीएसएल के साथ है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजे या 022-23058738 और 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 12.11.2024

कृते, गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड हस्ता./-

वाय.सी.राव, कंपनी सचिव

न्यायालय तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भाटापारा (छत्तीसगढ) ईश्तहार ...ब/ 121 वर्ष 2024-25 ग्राम- गोढ़ी टी प.ह.नं. 35 तह. भाटापारा

एतद व्दारा सर्व साधारण को ईश्तहार के व्दारा सुचित किया जाता है कि आवेदक दिनेश साहू पिता मालिकराम निवासी ग्राम गोढ़ी टी तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा अपने पुत्र चंदन साहू (पिता का नाम-दिनेश साहू, माता का नाम-भूमिका बाई साहू) का जन्म दिनांक 08/02/2008 को (स्थान) ग्राम गोढी टी तहसील भाटापारा का जन्म पंजीयन करने हेतु रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु ग्राम पंचायत सचिव गोढ़ी टी तहसील भाटापाराजिलाबलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ) को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं छत्तीसगढ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के नियम 9(3) के तहत निर्देश देने हेत शपथ पत्र, अनपलब्धता प्रमाण पत्र एवं सरपंच का प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके सबंध में प्रकरण विचाराधीन है, तथा दिनांक 25/11/24 को सुनवाई हेतु नियत है। अत: उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति

संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा-आपत्ति पेष करना हो तो नियत पेशी तारीख 25/11/24 तक स्वयं या अपने अभिभाषक या वैध प्रतिनिधि के माध्यम से दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पष्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार आज दिनांक जारी किया गया

11/11/24 को न्यायालय के पद महर सहित सील तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी भाटापारा (छत्तीसगढ)

न्यायालय तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भाटापारा (छत्तीसगढ) ईश्तहार

रा.प्र.क्र... ब/ 121 वर्ष 2024-25

ग्राम- गोढी टी प.ह.नं. 35 तह. भाटापारा एतद व्दारा सर्व साधारण को ईश्तहार के द्दारा सुचित किया जाता है कि आवेदक चैनप्रकाश मारकण्डे पिता टेटक् निवासी ग्राम गोढी टी तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा अपने पुत्री हेमकुमारी (पिता का नाम-चैनप्रकाश, माता का नाम-राजकुमारी) का जन्म दिनांक 02/07/2013 को (स्थान) ग्राम गोढी टी तहसील भाटापारा का जन्म पंजीयन करने हेतु रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु ग्राम पंचायत सचिव गोढ़ी टी तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छत्तीसगढ) को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के नियम 9(3) के तहत निर्देश देने हेत शपथ पत्र, अनपलब्धता प्रमाण पत्र एवं सरपंच का प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र ास्तुत किया है। जिसके सबंध में प्रकरण विचाराधीन है, तथा दिनांक 25/11/24को सुनवाई हेत् नियत है।

अत: उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा–आपत्ति पेष करना हो तो नियत पेशी तारीख 25/11/24 तक स्वयं या अपने अभिभाषक या वैध प्रतिनिधि के माध्यम से दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पष्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार आज दिनांक 11/11/24 को

प्रायालय के पद मृहर सहितजारी किया गया। सील तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी

रा.प्र.क्र... ब⁄ 121 वर्ष 2023-24 ग्राम- मधुबन प.ह.नं. ०६ तह. भाटापारा

एतदं व्दारा सर्व साधारण को ईश्तहार वे द्रारा सुचित किया जाता है कि आवेदक केजराम ध्रुव पिता अमरसिंह निवासी ग्राम मध्बन तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के द्वारा अपने पिता अमरसिंह (मृतक के पिता का नाम-तिहारू, माता का नाम-राजमित) की मृत्यु दिनांक 04/02/2015 को (स्थान) ग्राम मधुबन तहसील भाटापारा का मृत्यु पंजीयन करने हेत् रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु ग्राम पंचायत सचिव मधबन तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ) को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं छत्तीसगढ जन्म-मृत्य रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के नियम 9(3) वे तहत निर्देश देने हेत शपथ पत्र, अनपलब्धता प्रमाण पत्र एवं सरपंच का प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके सबंध में प्रकरण विचाराधीन है, तथा दिनांक 13/11/24 को सुनवाई हेत् नियत है।

सील

अत: उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा–आपत्ति पेश करना हो तो नियत पेशी तारीख 13/11/24 तक स्वयं या अपने अभिभाषक या वैध प्रतिनिधि के माध्यम से दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार आज दिनांक 09/10/24 को

ायालय के पद महर सहित जारीकिया गया।

तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी

न्यायालय तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

भाटापारा (छत्तीसगढ)

ईश्तहार

ग.प्र.क./ अ-6/ वर्ष 2024-25 - **सुरजपुरा प.ह.नं. 04** एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकंगण संगीता बजाज पति स्व. हरिश बजाज

गया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्या

सील